

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली

Industrial Research & Development Unit

औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई

हौज खास, नई दिल्ली -110016

Tel.:011-26597534

No. IITD/IRD/RP03414G/22736**Date: 01/10/2018****Advertisement No.: IITD/IRD/203/2018**

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा।

Title of the Project	Simulation based Preliminary Study of Lower Extremity (LE) Injuries caused by Blast (RP03414G)	
Funding Agency	Directorate of Extramural Research & Intellectual (DRDO)	
Name of the Project Investigator	Prof. Devendra Kumar Dubey	
Deptt./Centre	Department of Mechanical Engineering	
Duration of the Project	Upto:20.08.2020	
Post (s)	Consolidated fellowship / Pay-slab	Qualifications
Project Scientist (2)	Rs.32,000-35,200-38,400- 41,600-44,800-48,000-51,200/- p.m. plus HRA @ 20%	1 st class M. Tech. in Mechanical / Civil / Aerospace Engineering / Applied Mechanics with more than 70% marks in both M.Tech. and B.Tech. degrees along with GATE qualification. Major area of research as Finite Element Modeling in structural mechanics / impact mechanics / blast mechanics or related field OR 1 st class B. Tech. with two years professional research work experience (non-teaching) in Finite Element modeling. More than 75% marks in B.Tech. GATE qualification is required. Strong fundamentals and good academic background.

The candidates who are interested to apply for the above post should download **Form No. IRD/REC-4** from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. **by e-mail with advertisement No. on the subject line to Prof. Devendra Kumar Dubey at his email id: dubeyiitd@gmail.com**

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the interview details. Only short-listed candidates will be informed. In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact Prof. Devendra Kumar Dubey at his e-mail id: dubeyiitd@gmail.com

5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति अनुसूचित / जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा।

The last date for submitting the completed applications by e-mail is 15/10/2018 by 5.00 p.m. The shortlisted candidates who are called for interview should bring original certificates (both professional and academic) with a recent passport size photograph at the time of interview.

(वीरेंद्र कुमार वशिष्ठ)
सहायक कुल्सचिव, आईआरडी

वितरण

- Head of the Deptt./Centres/Units : It is requested that the contents of the Above Advt. be brought to the notice of the staff working in your Deptt./Centre/Unit
- Webmaster, IRD : To put advertisement at IITD website.
- Notice Boards
- Advertisement file
- Prof. Devendra Kumar Dubey, PI, Department of Mechanical Engg.
- Copy to Chairperson, DRC/CRC